



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 कार्तिक 1935 (श0)
(सं0 पटना 839) पटना, बुधवार, 6 नवम्बर 2013

सं0 10/ नीति (ए0आर0एम0)-87/2012-7192
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

संकल्प

5 नवम्बर 2013

विषय:-उत्पाद राजस्व संवर्द्धन के उद्देश्य से लॉटरी द्वारा खुदरा शराब दुकान की अनुज्ञप्तियों की बंदोवस्ती नीति 2007 में आंशिक संशोधन ।

उत्पाद राजस्व संवर्द्धन के उद्देश्य से लॉटरी द्वारा खुदरा शराब दुकान की अनुज्ञप्तियों की बंदोवस्ती नीति, 2007 दिनांक 07.06.2007 में संकल्प सं0 451 दिनांक 23.01.2013 द्वारा कंडिका 9 एवं 11 में किये गये संशोधन को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

“9

क्र0	प्रति पेटी लागत मूल्य (एक्स डिस्टीलरी प्राईस)	पूर्व में संकल्प संख्या 451 दिनांक 23.01.13 द्वारा प्रतिस्थापित प्रति एल.पी. लीटर उत्पाद कर की देयता	नई उत्पाद कर की देयता ।
1	रू0 500 (पाँच सौ रुपये) प्रति पेटी तक	रू0 60 (साठ रुपये) प्रति एल0पी0एल0	रू0 90 (नब्बे रुपये) प्रति एल0पी0एल0
2	रू0 500 (पाँच सौ रुपये) से अधिक एवं रू0 800 (आठ सौ रुपये) प्रति पेटी तक	रू0 80 (अस्सी रुपये) प्रति एल0पी0एल0	रू0 120 (एक सौ बीस रुपये) प्रति एल0पी0एल0
3	रू0 800 (आठ सौ रुपये) से अधिक एवं रू0 1200 (बारह सौ रुपये) प्रति पेटी	रू0 100 (एक सौ रुपये) प्रति एल0पी0एल0	रू0 150 (एक सौ पचास रुपये) प्रति एल0पी0एल0

उपरोक्त लागत मूल्य एवं मूल्य आधारित उत्पाद कर की दर के योग पर एकल बिन्दु वैट (वाणिज्य-कर) वसूलनीय होगा ।

11. बीयर पर पूर्व में अल्कोहलिक मात्रा पर आधारित दर को संशोधित कर प्रति बल्क लीटर उत्पाद कर की देयता निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है:-

क्र०	प्रति पेटी लागत मूल्य (एक्स डिस्टिलरी प्राईस)	उत्पाद कर की देयता।
1	2	3
1	रु० 350 से कम	22 रु० प्रति ब०ली०
2	रु० 350 से अधिक रु० 450 तक	24 रु० प्रति ब०ली०
3	रु० 450 से अधिक पर	26 रु० प्रति ब०ली०

बीयर के लागत मूल्य पर उपर्युक्त उत्पाद कर सहित एकल बिन्दु पर वैट (वाणिज्य-कर) वसूलनीय होगा।”

2. उपर्युक्त उत्पाद कर की देयता गजट प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार गजट के असाधारण अंक में किया जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संदीप पौण्डरीक,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 839-571+500-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>